


आचार्य
Feelings



✎ Espen Stranger-Johannessen
☑ Aakaneer
📄 Pratihha Singh
🔊 1
🗣️ हिन्दी / English en



LIDA Stories


lidastories.net

आचार्य / Feelings

✎ Espen Stranger-Johannessen
☑ Aakaneer
📄 Pratihha Singh (hi)




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International license.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>



“मुझे डर लग रहा है।”

...

“I am scared.”



“कितनी शर्म की बात है।”


...

“That’s a shame.”

“ouch!”

...


“iye!”




“I’m thirsty.”

...

“ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ।”






“तुम ठीक तो हो?”

...

“Are you okay?”



“मुझे नींद आ रही है।”


...

“I'm sleepy.”

“My stomach hurts.”

...


“ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ।”




“I’m tired.”

...

“ਮੈਂ ਥਕ ਗਿਆ।”






“मेरे सिर में दर्द है।”

...

“I have a headache.”



“मुझे भूख लगी है।”

...

“I'm hungry.”